

रक्षा अधग्रहण परिषद

रक्षा अधग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council- DAC) ने सशस्त्र बलों और **भारतीय तटरक्षक** हेतु 70,500 करोड़ रुपए के पूंजी अधग्रहण प्रस्तावों के लिये 'बाय इंडियन-IDDMM' (स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित) के तहत **आवश्यकतानुसार स्वीकृति (Acceptance of Necessity- AoN)** को मंजूरी दी।

अधग्रहण प्रस्तावों की प्रमुख विशेषताएँ:

- **भारतीय नौसेना:**
 - कुल प्रस्तावों में से **भारतीय नौसेना** के प्रस्तावों में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्वदेशी **ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल**, **शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW)** सिस्टम, **यूटिलिटी हेलीकॉप्टर-मैरीटाइम** शामिल हैं।
- **वायु सेना:**
 - **भारतीय वायु सेना** के लिये लॉन्ग रेंज स्टैंड-ऑफ हथियारों को मंजूरी मिली है, जैसे **SU-30 MKI** विमान में एकीकृत किया जाना है।
- **सेना:**
 - साथ ही **भारतीय सेना** के लिये 155mm/52 कैलब्रि **एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS)** के साथ-साथ हाई मोबिलिटी और गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद की जाएगी।
- **हडिस्तान एयरोनॉटिक्स:**
 - DAC द्वारा की गई इस घोषणा का हडिस्तान एयरोनॉटिक्स एक बड़ा लाभार्थी है, क्योंकि यह भारतीय तटरक्षक को **एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) MK-III** की आपूर्ति करेगा। यह हेलीकॉप्टर नगिरानी सेंसर का पैकेज ले जाने में सक्षम होगा जो भारतीय तटरक्षक बल के संचालन के लिये पूरी रात कार्य करने की और नगिरानी क्षमताओं में वृद्धि करेगा।
- **मध्यम गति के समुद्री डीज़ल इंजन:**
 - **मेक-1 कैटेगरी** के तहत मध्यम गति के समुद्री डीज़ल इंजन का निर्माण स्वदेश में किया जाएगा।

रक्षा अधग्रहण परिषद:

- **DAC रक्षा मंत्रालय में तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक हेतु** नई नीतियों एवं पूंजी अधग्रहण पर नरिणय लेने के लिये सर्वोच्च नरिणय लेने वाली संस्था है।
- रक्षा मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है।
- कारगलि युद्ध (1999) के बाद वर्ष 2001 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर मंत्रियों के समूह की सफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था।

स्रोत: द हट्टि